



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं० 4] नई दिल्ली, मार्च 4—मार्च 10, 2007, शनिवार/फाल्गुन 13—फाल्गुन 19, 1928
No. 4] NEW DELHI, MARCH 4—MARCH 10, 2007, SATURDAY/PHALGUNA 13—PHALGUNA 19, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2007

आ. अ. 8.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी में यथाविनिर्दिष्ट आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2004 के लिए जो स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों

को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है :—

सारणी		
क्र. विधान सभा निर्वाचन स. क्षेत्र की क्र. सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहता का कारण
1. 189—नगर कुरनूल	श्री टी. श्रीनिवासुलु सलेपल्ली ग्राम, कोइलकोण्डा मण्डल महबूबनगर जिला आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
2. 286—मिरयालगुडा	श्री कर्लापती जानिआह म. सं. 4—113 कालालवाडा, मिरयालगुडा, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया

[सं. 76/आ.प्र.-वि.स./2005]

आदेश से,
तपस कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**ORDER**

New Delhi, the 7th March, 2007

O.N. 8.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the table below at the General Election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly, 2004 held from the Constituency specified in the column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses and failed to lodge the account in the manner as mentioned in column (4) of the said table, as required by the Representation of the People, Act, 1951 and the Rules made thereunder ;

And, whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice, or the Election Commission after considering the representation made by them if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order :—

TABLE

Sl. No.	No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of the contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4
1.	189-Nagarkunool	Sh. T. Srinivasulu, Salepally Village, Koilkonda Mandal, Mahabubnagar District, Andhra Pradesh.	Accounts not lodged
2.	286-Miryalguda	Sh. Karlapati Janaiah, H.No. 4-119, Kalalwada, Miryalaguda Andhra Pradesh.	Accounts not lodged

[No. 76/AP-LA/2005]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2007

आ. अ. 9.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 59-लॉगदिंग-पुमाओ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से

साधारण निर्वाचन, के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री तिगजेम वांगसा, ग्राम निआनु पो. ओ. व पु. था. लॉगदिंग तिराप, अरुणाचल प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों द्वारा अपेक्षित निर्वाचन-व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः श्री तिगजेम वांगसा ने सम्यक् सूचना दिए जाने के बाद भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है तथा निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में श्री तिगजेम वांगसा, ग्राम निआनु. पो. ओ. पु. था. लॉगदिंग तिराप, अरुणाचल प्रदेश को संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य होने और चुने जाने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं. 76/आ.प्र.-वि.स./2004]

आदेश से,

के. अजय कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th March, 2007

O.N. 9.—Whereas, the Election Commission is satisfied that Shri Tingjem Wangsa, Village Nianu, P.O. & P. S. Longding, District Tirap, Arunachal Pradesh a contesting candidate for the General Election to Legislative Assembly, 2004 from 59-Longding-Pumao (ST) Assembly Constituency has failed to lodge the account of his election expenses as required under the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Order made thereunder; and

Whereas, Shri Tingjem Wangsa has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10-A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the said Shri Tingjem Wangsa to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/ARUN-LA/2004]

By Order,

K. AJAYA KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2007

आ. अ. 10.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट असम की लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2004 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वर्द्धन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10—के के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हता घोषित करता है :-

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	2—सिल्चर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	श्री आशुतोष दास, सैयदपुर, भाग-II, पो. ओ.-सैयदपुर, अमटोला बाजार, पी.एस. काटिगोरा, जिला-कछार, असम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	—वही—	श्री क्षीतेन्द्र सरकार, नुतन कंचनपुर, पो. ओ. नुतन कंचनपुर, पी.एस. सिल्चर, जिला-कछार, असम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	—वही—	श्री मनोरंजन दास, चण्डीनगर, भाग-IV, नरपति कॉलोनी, पो.ओ. -सैयदपुर, अमटोला बाजार, पी.एस. काटिगोरा, जिला कछार, असम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	11—कालियाबोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	श्री जीतू शर्मा, ग्राम-चिनाटोली, पो.ओ. -कचारीहाट, जिला-गोलाघाट, असम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	—वही—	श्री अतुर रहमान, फौजदारी पट्टी, नैगांव टाऊन, पो.ओ. व जिला नैगांव, असम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

[सं. 76/असम-लो. स. /2005]

आदेश से,
के. अजय कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th March, 2007

O.N. 10.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Lok Sabha of Assam, 2004 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name, has failed to lodge account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Orders made thereunder, as shown in column (5) of the said Table; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10-A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of election	No. and Name of Constituency	Name & Address of contesting candidates	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Lok Sabha, 2004	2-Silchar Parliamentary Constituency	Shri Ashutosh Das, Saidpur, Part-II, P.O. Saidpur, Amtola Bazar, P.S. Katigorah, District Cachar, Assam.	Failed to lodge account of election expenses.
2.	General Election to the Lok Sabha, 2004	—do—	Shri Kshitindra Sarkar, Nutan Kachanpur, P.O. Nutan, Kanchanpur, P.S. Silchar, District Cachar, Assam.	Failed to lodge account of election expenses.
3.	General Election to the Lok Sabha, 2004	—do—	Shri Monoranjan Das, Chandinagar, Part-IV, Narapati Colony, P.O. Saidpur, Amtola Bazar, P.O. Katigorah, District Cachar, Assam.	Failed to lodge account of election expenses.
4.	General Election to the Lok Sabha, 2004	11-Kaliabor Parliamentary Constituency	Shri Jitu Sharma Vill. Chinatoli, P.O. Kacharihat, District Golaghat, Assam.	Failed to lodge account of election expenses.
5.	General Election to the Lok Sabha, 2004	—do—	Shri Atar Rahman, Fauzdari Patty, Nagaon Town, P.O. & District Nagaon, Assam.	Failed to lodge account of election expenses.

[No. 76/AS-HP/2005]

By Order,

K. AJAYA KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2007

आ. अ. 11.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य से विधान सभा 2005 के उप-निर्वाचन के लिए जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा दर्शित विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिता घोषित करता है :-

सारणी

क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्र. सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहिता का कारण
1	2	3	4
1.	213-आसफनगर	श्री बी. डेविड, 771-403 अमीरपेट, बालकमपेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
2.	213-वही-	श्री मो. अकबर अली खान, 16-9-406/ए/12, ओल्ड मलकापेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	-वही-
3.	213-वही-	श्री मो. अजमतुल्लाह, 10-2-347/बी/4/1, ताजनगर कालोनी, आसफनगर, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	-वही-
4.	213-वही-	श्री डी. सत्यानारायण, 10-2-317/34, विजय नगर कालोनी, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	-वही-
5.	213-वही-	श्री सोहेल फारुखी, 6-3-1239/1/1, राजभवन रोड सोमाजीगुडा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	-वही-
6.	220-सिद्दीपेट	श्री यदला सुदर्शन राव मुदीराज, 5.0.54/93, पूल बाग बशीर बाग, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	-वही-
7.	220-वही-	श्री चिन्तामोदका पेन्द्यहला राजना, 7-59, इन्द्रानगर, प्रशांतनगर जी.पी., सिद्दीपेट मण्डल, मेडक जिला, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	-वही-

[सं. 76/आ. प्र.-वि. स. /2005(उप)]

आदेश से,
तपस कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th March, 2007

O.N. 11.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in cloumn (3) of the Table below at the Bye-Election to Andhra Pradesh Legislative Assembly, 2005 held from the

619 GI/07-2

Constituency specified in column (2) against his name has failed to lodge any account of his election expenses as shown in column (4) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder; and

Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order. :—

TABLE

Sl. No.	No. & name of Assembly Constituency	Name & Address of the contesting candidates	Reason for disqualification
1	2	3	4
1.	213—Asifnagar	Shri B. David, 7-1-403, Ameerpet, Balkampet, Hyderabad, Andhra Pradesh.	Accounts not lodged
2.	213—do—	Shri Mohd. Akber Ali Khan, 16-9-406/A/12, Old Malakpet, Hyderabad, Andhra Pradesh.	—do—
3.	213—do—	Shri Mohd. Azmathulla, 10-2-347/B/4/1, Tajnagar Colony, Asifnagar, Hyderabad, Andhra Pradesh.	—do—
4.	213—do—	Shri D. Satyanarayana, 10-2-317/34, Vijayanagar Colony, Hyderabad, Andhra Pradesh.	—do—
5.	213—do—	Shri Sohail Farooqui, 6-3-1239/1/1, Rajbhavan Road, Soamjiguda, Hyderabad, Andhra Pradesh.	—do—
6.	220—Siddipet	Shri Yadla Sudershan Rao Mudiraj, 5-9-54/73, Pool Bagh,, Basheer Bagh, Hyderabad, Andhra Pradesh.	—do—
7.	220—do—	Shri Chintamodka Pendyha Rajana, House No. 7-59, Indranagar, Prashntnagar G.P., Siddipet Mandal, Medak District, Andhra Pradesh.	—do—

[No. 76/AP-LA/2005(Bye)]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2007

आ. अ. 12.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट अरूणाचल प्रदेश लोक सभा 2004 के साधारण निर्वाचन, के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट

निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहता का कारण
1	2	3	4	5
1.	लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	2-अरुणाचल पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	श्री ओगोंग तामु, ग्राम बंसकोटा-I, डाकघर-पासीघाट, जिला ईस्ट सियांग, अरुणाचल प्रदेश	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	2-अरुणाचल पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	श्री ओनोम टाकन्यो, डाकघर-पासीघाट, ईस्ट सियांग, अरुणाचल प्रदेश	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

[सं. 76/अरुणाचल प्रदेश-लो. स./2004]

आदेश से,

के. अजय कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th March, 2007

O.N. 12.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Lok Sabha of Arunachal Pradesh, 2004 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name, has failed to lodge account of election expenses as required under the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Orders made thereunder, as shown in column (5) of the said Table; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of election	No. and Name of Constituency	Name & Address of contesting candidates	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to Lok Sabha, 2004	2-Arunachal East Parliamentary Constituency	Shri Ogong Tamuk, Vill. Banskota-I, P.O. Pasighat, District East Siang, Arunachal Pradesh	Failed to lodge accounts of election expenses.

1	2	3	4	5
2	General Election to Lok Sabha, 2004	2-Arunachal East Parliamentary Constituency	Shri Onom Taknyo, P.O. Pasighat, East Siang, Arunachal Pradesh	Failed to lodge account of election expenses.

[No. 76/ARUN-HP/2004]

By Order,

K. AJAYAKUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2007

आ. अ. 13—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2004, के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अंतर्गत और/अथवा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहता का कारण
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2004	133-नागपुर उत्तर (अ.जा.)	एड. राजरतन रामचन्द्र तेमभूरने, 690, संजय ग्राउण्ड, काम्पटी रोड, नागपुर-14	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा।
2.	महाराष्ट्र विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2004	133-नागपुर उत्तर (अ.जा.)	श्री प्रकाश नारायण मेशराम, मोथा इन्डौर प्लॉट नं.-160, नारा रोड, भीम चौक के पास, नागपुर।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा।
3.	महाराष्ट्र विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2004	133-नागपुर उत्तर (अ.जा.)	श्री भीमराव शामराव पाखिन्दे, बुद्ध नगर, आनन्द विहार के पीछे, प्लॉट नं. 595, नागपुर-17	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा।
4.	महाराष्ट्र विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2004	133-नागपुर उत्तर (अ.जा.)	श्री रविन्द्र के. सहारे, राम मनोहर लोहिया पुस्तकालय के पास, अशोक नगर, मकान नं. 1323, नागपुर-17	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा।
5.	महाराष्ट्र विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2004	135-नागपुर (दक्षिण)	श्री काम्बले मनोज रामचन्द्र, जय भीम नगर, रामेश्वरी रोड, नागपुर, महाराष्ट्र।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा।

1	2	3	4	5
6.	महाराष्ट्र विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2004	235-कोपरगांव	श्री करडे प्रकाश सदाशिव, स्थान : डाकघर-कान्हेगांव, तालुक-कोपरगांव, महाराष्ट्र।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा।
7.	महाराष्ट्र विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2004	235-कोपरगांव	श्री पवार हरिभाऊ बापूराव, स्थान : डाकघर-घारी, तालुक-कोपरगांव, महाराष्ट्र।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा।

[सं. 76/महाराष्ट्र-वि. स. /2004]

आदेश से,
बर्नार्ड जॉन, सचिव**ORDER**

New Delhi, the 7th March, 2007

O.N. 13.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Maharashtra Legislative Assembly, 2004 specified in column (2) and held from the Constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column (5) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of election	S. No. and Name of Assembly Constituency	Name & Address of contesting candidate	Reasons for disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Elections to Maharashtra Legislative Assembly, 2004	133-Nagpur North (SC)	Adv. Rajratna Ramachandra Tembhumne, 690, Sanjay Ground, Kamptee Road, Nagpur-14.	Failed to lodge any account of his election expenses.
2.	General Elections to Maharashtra Legislative Assembly, 2004	133-Nagpur North (SC)	Sh. Prakash Narayan Meshram, Motha Indora Plot No. 160, Nara Road, Near Bhim Chowk, Nagpur.	Failed to lodge any account of his election expenses.
3.	General Elections to Maharashtra Legislative Assembly, 2004	133-Nagpur North (SC)	Sh. Bhimrao Shamrao Pakhinde, Buddha Nagar, Behind Anand Vihar, Plot No. 595, Nagpur-17	Failed to lodge any account of his election expenses.
4.	General Elections to Maharashtra Legislative Assembly, 2004	133-Nagpur North (SC)	Sh. Ravinder K. Sahare, Near Ram Mnohar Lohiya Library, Ashok Nagar, House No. 1323, Nagpur-17	Failed to lodge any account of his election expenses.

619 GI/07-3

1	2	3	4	5
5.	General Elections to Maharashtra Legislative Assembly, 2004	133-Nagpur South	Shri Kamble Manoj Ramchandra, Jai Bhim Nagar, Rameshwari Road, Nagpur, Maharashtra.	Failed to lodge any account of his election expenses.
6.	General Elections to Maharashtra Legislative Assembly, 2004	235-Kopargaon	Shri Kadre Prakash Sadashiv, At Post-Kanhegaon, Tal-Kopargaon, Maharashtra.	Failed to lodge any account of his election expenses.
7.	General Elections to Maharashtra Legislative Assembly, 2004	235-Kopargaon	Shri Pawar Haribhau Bapurao, At Post-Ghari, Tal-Kopargaon, Maharashtra.	Failed to lodge any account of his election expenses.

[No. 76/MT-LA/2004]

By Order,

BERNARD JOHN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2007

आ. अ. 14-यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2004 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अंतर्गत दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिता घोषित करता है :-

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरहिता का कारण
1	2	3	4	5
1.	लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2004	20-हिंगोली	राठौर संजय कुमार तुलसीराम, स्थान-चंचा, तालुक-कालामनुरी, जिला-हिंगोली, महाराष्ट्र	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा।

[सं. 76/महाराष्ट्र-लो. स. /2004]

आदेश से,
बर्नार्ड जॉन, सचिव**ORDER**

New Delhi, the 7th March, 2007

O.N. 14.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Lok Sabha, 2004 from the State of Maharashtra specified in column (2) and held from the Constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column (5) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. and Name of Parliamentary Constituency	Name & Address of contesting candidate	Reason for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to Lok Sabha, 2004	29-Hingoli	Rathod Sanjaykumar Tulshiram, At Chuncha Tq. Kalamnuri, Distt. Hingoli, Maharashtra.	Failed to lodge any account of his election expenses.

[No. 76/MT-HP/2004]

By Order,

BERNARD JOHN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2007

आ. अ. 15.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि केरल विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2006, जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों से हुआ है, स्तम्भ (3) में उसके नाम के सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्रम सं.	विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहता का कारण
1	2	3	4
1.	55-वाडाक्कानचेरी	सी.एल. औसेफ, (सी.एल.बेबी.) सुपुत्र/सी.एल.लोनाप्पन, चित्रातुकारा हाउस, डाकघर धेक्कुमकारा, वाडाक्कानचेरी	कोई लेखा दाखिल नहीं किया।
2.	57-चेरपु	के. उन्नीकृष्णन, कडमामकन्दाथ हाउस, कानी मंगलम पो.ऑ.- जिस्सुर	-वही-

1	2	3	4
3.	57-चेरु	इंजीनियर सी.जी. उन्नीराज, चेथिक्काट्टिल हाउस, चाझूर पोस्ट	कोई लेखा दाखिल नहीं किया।
4.	59-ओल्लुर	श्री सी. के. दिलीप कुमार (वाडाक्कन) चुल्लीवालयपी हाउस, अलप्पारा डाकघर, कानरा	-वही-
5.	-वही-	श्री एम. के. नन्दाकुमार मनिक्कुन्निल हाउस, वेदुट्टुकाड पी. ओ.	-वही-
6.	65-गुरुवायूर	गोपालन उर्फ जी. अन्दिक्काड चेन्डा हाउस, पेरिन्नो टुकारा पी. ओ. त्रिस्सुर, केरल	-वही-
7.	82-धेडुपुझा	कुट्याप्पान नाडुकानी नडुकुडलियिल (एच), वेल्लियाट्टोम पी. ओ. शेडुपुझा, केरल	-वही-
8.	84-इडुकी	पी. के. सजीवन, प्लाप्पिल्लील (एच) मुक्कुडिल, सेनापाथी, केरल	-वही-

[सं. 76/केरल-विधान सभा/2007]

आदेश से,
तपस कुमार, सचिव**ORDER**

New Delhi, the 7th March, 2007

O. N. 15.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the General Election to the Kerala Legislative Assembly, 2006 held from the Constituency specified in the column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of the contesting Candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4
1.	55-Wadakkanchery	C. L. Ouseph, (C. L. Baby) S/o C. L. Lonappan, Chittattukara House, P. O. Thekkumkara Wadakkanchery	Accounts not lodged at all.

1	2	3	4
2	57-Cherpu	K. Unnikrishnan, Kadamamkandath House, Kanimangalam P. O. Thrissur.	Accounts not lodged at all.
3.	—do—	Engineer C. G. Unniraj, Chethikkattil House, Chazhoor Post.	—do—
4.	59-Ollur	Shri C. K. Dilipkumar (Vadakkan) Chullivalappk House, Alppara—P. O.-Kannara	—do—
5.	—do—	Shri M. K. Nandakumar, Manikkunnil House, Vettukad PO.	—do—
6.	65-Guruvayur	Gopalan alias G. Anthikad, Chendra House, Peringottukara P. O. Thrissur, Kerala	—do—
7.	82-Thodupuzha	Kuttappan Nadukani, Nadukudlyil (H) Velliyattom PO Thodupuzha, Kerala.	—do—
8.	84-Idukki	P. K. Sajeewan Plappillil (H) Mukkudil, Senapathy, Kerala.	—do—

[No. 76/KL-LA/2007]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2007

आ. अ. 16—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट तमिलनाडु विधान सभा के उप निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्रों से हुआ है, स्तम्भ (3) में उसके नाम के सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वर्ती बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है,

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों में से प्रत्येक को सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उन्होंने उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः, अब निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की-तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

619 GI/07-4

सारणी

क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4
1.	15-गुम्मिडिपुन्डी	धेनमोझी (श्रीमती) यू., 218 ए, पूवलांबेडु ग्राम और पोस्ट गुम्मिडिपुन्डी तालुक।	कोई लेखा दाखिल नहीं किया।
2.	15-गुम्मिडिपुन्डी	पासाम (श्रीमती) ए., पूवलांबेडु ग्राम और पोस्ट गुम्मिडिपुन्डी तालुक।	कोई लेखा दाखिल नहीं किया।
3.	15-गुम्मिडिपुन्डी	लोगानाथन एल., 27 ए, कोल्लानुर ग्राम, धेरवाय पोस्ट गुम्मिडिपुन्डी तालुक।	कोई लेखा दाखिल नहीं किया।
4.	15-गुम्मिडिपुन्डी	वेंकटेशन आर., वानीमल्ली ग्राम. थोमीपून्डी पोस्ट, गुम्मिडिपुन्डी तालुक, तिरुवल्लुर जिला।	कोई लेखा दाखिल नहीं किया।
5.	15-गुम्मिडिपुन्डी	विजय कुमार एस., 104, पूवलांबेडु ग्राम और पोस्ट गुम्मिडिपुन्डी तालुक।	कोई लेखा दाखिल नहीं किया।

[सं. 100/तमिलनाडु-विधान सभा/2005]

आदेश से,

तपस कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th March, 2007

O. N. 16.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the Bye Election to the Tamil Nadu Legislative Assembly, 2005 held from the Constituency specified in the column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder:—

And, whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order.

TABLE

Sl. No.	No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of the contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4
1.	15—Gummidipoondi	Thenmozhi (Tmt) U. 218A, Poovalambedu Village and Post, Gummidipoondi Taluk.	Accounts not lodged at all.
2.	—do—	Pasam (Tmt) A. Poovalambedu Village & Post, Gummidipoondi Taluk.	-do-
3.	—do—	Sh. Loganathan L. 27A, Kollanur Village, Thervoy Post, Gummidipoondi Taluk.	-do-
4.	—do—	Venkatesan R. Vaniyamalli Village. Thomipoondi Post, Gummidipoondi Taluk, Tiruvallur District.	-do-
5.	—do—	Vijay Kumar S. 104, Poovalambedu Village and Post, Gummidipoondi Taluk.	-do-

[No. 100/TN-LA/2005]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2007

आ. अ. 17.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि तमिलनाडु विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2006, जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्रों से हुआ है, स्तम्भ (3) में उसके नाम के सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी में स्तम्भ (4) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है,

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा, नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4
1.	1—रोयापुरम	श्रीनिवासुलु जे. सं. 44, चिदामबरम, नाथन स्ट्रीट, अंजनेय नगर, रोयापुरम, चेन्नई-13	कोई लेखा दाखिल नहीं किया।

1	2	3	4
2.	1-रोयापुरम	अलेक्जेंडर जी., सं. 117/1, पी. वी. कोयल स्ट्रीट, रायापुरम, चेन्नई-13	कोई लेखा दाखिल नहीं किया।
3.	2-हार्वर	के सक्थीवेल, 138, वराधा मुथियाप्पन स्ट्रीट, सेवन वाल्स, चेन्नई-1	-वही-
4.	-वही-	पी. मुनुसामी, 38/1, नरैक्कायर स्ट्रीट, ओल्ड वाशरमेनपेट, चेन्नई-21	-वही-
5.	5-पेराम्बुर, अ. जा.;	लिगम जे., सं. 51/1, न्यू स्ट्रीट, अयानवरम, चेन्नई-23	-वही-
6.	-वही-	संम्यडोस एस., सं. 10, वेंकटेशपुरम, नई कॉलोनी, 1 स्ट्रीट, कनिगापुरम, चेन्नई-12	-वही-
7.	-वही-	दैवा स्वरूप चन्द्रन, सं. 1, रामचन्द्रन स्ट्रीट, पेराम्बुर, चेन्नई-11	-वही-
8.	-वही-	बास्कर ई., सं. 31, मोरथिंगर स्ट्रीट, वयासराबदी, चेन्नई-39	-वही-
9.	-वही-	रविचन्द्रन डी., सं. 13/1, पेरिया पालयाथाम्मन कोरल, दूसरी स्ट्रीट, मोलाकोथलम, चेन्नई-21	-वही-
10.	6-पुरासावाल्कम	वसंथा कुमारी ए, 11/53, कामराजर स्ट्रीट, थिरुपरल्लुरवार नगर, अयानावरम, चेन्नई-23	-वही-
11.	-वही-	सेन्थिल वाडिवेलान एस.पी., 8/2, एन. बलॉक, 23वीं स्ट्रीट, अन्ना नगर पूर्व, चेन्नई	-वही-
12.	-वही-	वेंकटेशन जी., 53/2, बाजनै कोइल स्ट्रीट, किझ, नाडुवानगरै, चेन्नई-106	-वही-
13.	9-थ्यागरायनगर	राजेन्द्र प्रसाद एस., 1/32, सूबेदार थोट्टम, चोलेमेडु, चेन्नई-94	-वही-
14.	-वही-	हसन फैजल, एल.एस.एम. सं. 4-7, स्वराष्ट्र नगर, दूसरी स्ट्रीट, चोलैमेडु, चेन्नई-600094	-वही-
15.	-वही-	टप्पू विमल जे., सं. 7 बाजनै कोइल, पहली स्ट्रीट, वाडापलानी, चेन्नई-600026	-वही-
16.	-वही-	अंबाझागन जे., सं. 7, थिरुवल्लुर स्ट्रीट, मथिझागन नगर, सालीग्रामम, चेन्नई-600093	-वही-
17.	-वही-	नटराजन वी., सं. 11/10-3, न्यू वोग रोड, टी. नगर, चेन्नई-600017	-वही-
18.	-वही-	राजन आर, सं. 48/68 बाजनै कोइल, पहली स्ट्रीट, वाडापलानी, चेन्नई-600026	-वही-
19.	12-ट्रिप्लिकेन	सरवानन के. 14, सिवाराजापुरम, ट्रिप्लिकेन, चेन्नई-5	-वही-
20.	-वही-	ससिकुमार एस., 33/6, अयोधिया नगर, ट्रिप्लिकेन, चेन्नई-5	-वही-

1	2	3	4
21.	12-ट्रिप्लिकेन	शनमुगम पी., 60 क वेंकटरांगम स्ट्रीट, स्लम एरिया, शिवराजापुरम, ट्रिप्लिकेन, चेन्नई-5	कोई लेखा दाखिल नहीं किया।
22.	-वही-	स्थानम एम., न्यू नं. 106 ओल्ड नं. 44, सोरप्पा स्ट्रीट, ट्रिप्लिकेन, चेन्नई-5	-वही-
23.	-वही-	विवेकनंदन आर., सं. 6 एल.जी. ब्लॉक, लायडस कालोनी, रॉयपेट्टाट, चेन्नई-14	-वही-
24.	13-माइलापेर	गोकुलनाथन बी., 39/20, रोसारी चर्च रोड, माइलापेर, चेन्नई-4	-वही-
25.	-वही-	सेकर सी, 63, तीसरी स्ट्रीट, दक्षिण केसव, पेरूमलपुरम, ग्रीनवेज रोड, चेन्नई-28	-वही-
26.	14-सौदापेट	कन्दास्वामी पी., सं. 35/547, तमिलनाडु स्लम क्लीयरेंस बोर्ड, न्यू टेनामेन्ट्स, गोथामेडु, सौदापेट, चेन्नई-15	-वही-
27.	-वही-	थिरुवेंगादम यू., ओल्ड सं. 20क न्यू सं. 53, भारती नगर, मेन रोड, भारती नगर, गुइन्डी, चेन्नई-32	-वही-
28.	-वही-	जयशंकर एम., सं. 31/496, तमिलनाडु स्लम क्लीयरेंस बोर्ड, न्यू टेनामेन्ट्स, गोथामेडु, सौदापेट, चेन्नई-15	-वही-
29.	22-चिगलपट्टु	तुलसी अम्मै आर., 2, चौथी स्ट्रीट, गजलक्ष्मी कॉलोनी, शेनॉय नगर, चेन्नई-600030	-वही-
30.	-वही-	वेदापुरी एम., ए-17ए, पहली मेन रोड, अन्ना नगर, चिगलपट्टु	-वही-
31.	48-वेल्लोरे	कार्तिगेयान बी., 39, गोविंदा मुदाली स्ट्रीट, काटपाडी, वेल्लोरे-632007	-वही-
32.	50-चेययर	तमिझिनियान टी., 83, पेरूमल कोइल स्ट्रीट, ग्राम व पोस्ट दुसी, चेययर तालुक-631702	-वही-
33.	-वही-	दास यु, ग्राम व पोस्ट मेनाल्लुर, चेयर तालुक	-वही-
34.	51-वन्डिवाश (अ.ज.जा.)	ससिकुमार बी., सुपुत्र वराधन, पोस्ट किजनेथापक्कम अक्कुर, चेययर तालुक	-वही-
35.	52-पेरानामल्लुर	धान्सु आर., 1/59ए, वाडाक्कुराजा स्ट्रीट, मेदंगुनाम ग्राम, वन्डिवाश तालुक	-वही-
36.	85-तारामंगलम	मुथुसामी पी., नचिवायानुर, पाननकाट्टर (पो.ऑ.), यू. मारामंगलम, ओयालुर तालुक	-वही-
37.	-वही-	पलानीबेल एम., वार्ड-11, 9, पुधु स्ट्रीट, लाइन-2, तारामंगलम, ओयालुर तालुक	-वही-
38.	87-येरकौड (अ.ज.जा.)	श्रीमती कुप्पायी. ई., 30/68, ऑडीकडाई पोस्ट, मुंडागामपाडी, येरकाड	-वही-
39.	-वही-	चन्दन डी., पप्पिनाईकेनपट्टी, पोस्ट, पुडु पप्पिनाईकेनापट्टी,	-वही-
40.	92-अट्टुर	अट्टुर तालुक अन्टो डेविड, एस., ओल्ड नं. 23 न्यू नं. 1, मैरी स्ट्रीट, 9वां वार्ड, अट्टुर-636102	-वही-
41.	-वही-	लक्ष्मणन, एन., ओल्ड नं. 41 न्यू नं. 38, मनियन स्ट्रीट, वार्ड सं. 16, पुडुपेट, अट्टुर-636141	-वही-

619 GI/07-5

1	2	3	4
42.	117-कंगायम	सुब्रमनियम, के., 161, शक्ती नगर, घारापुरम रोड कंगायम	कोई लेखा दाखिल नहीं किया
43.	--वही--	पलानीसामी, के., 5/95, अटिपयापालयम, कंगायम	--वही--
44.	118-मोडाक्कुरची	सेल्लादुराई. के., 60 वेलमपालयम, 6., वेलमपालयम (पो.ऑ.) एलुयाथुर (भाया) एरोड, तालुक	--वही--
45.	--वही--	मायिलसामी के., 14, मेन वीथि, हरिजन स्ट्रीट, स्टाईसुत्रिवालयम, अवालपून्दुराई (पो. ऑ.), एरोड तालुक	--वही--
46.	119-पेरून्दुराई	सुब्रमनियम एम. एम. एस., सुपुत्र मारीसामी, 19, राइस मिल पुडूर, नललामपट्टी, पो.ऑ. थुडुपट्टी (वाया) पेरून्दुराई (टी.के.)	--वही--
47.	--वही--	देवादासन, बी., सुपुत्र बालैया नाडार, 219, थेन्द्राल नगर, पेरून्दुराई	--वही--
48.	--वही--	सामिनाथन, आर., सुपुत्र रमन, 21, हरिजन कॉलोनी, उन्जापालायम, अट्टावनाई हनुमानापल्ली, आराचालुर-638101	--वही--
49.	138-उसिलामपट्टी	सूर्य देव एम., सुपुत्र ई मायान्डी, 186/36, दीवा कान्ती स्ट्रीट, अनुप्पानाडी, मदुरै-9	--वही--
50.	140-शोलावन्दन	सीनिवासन एस., सुपुत्र ओ. सुब्बिया, 59ए, नॉर्थ स्ट्रीट, आलंगानाल्लुर, वडियापट्टी तालुक, मदुरै जिला	--वही--
51.	141-तिरुप्पारालुन्द्रम	सथ बाबू सी, प्लॉट नं. 3347, मेला अनुप्पानाडी क्वार्टर्स, मदुरै-9	--वही--
52.	144-मदुरै पूर्व	एडवर्ड पी.एस.पी., 203, मुनियान्डी कोइल स्ट्रीट, मदुरै-10	--वही--
53.	--वही--	राजागोपाल आर., सी-195टी एन एच बी कॉलोनी, मिल नगर, आनाइयुर, मदुरै-17	--वही--

[सं. 76/तमिलनाडु-विधान सभा/2007]

आदेश से,

तपस कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th March, 2007

O.N. 17.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the General Election to the Tamil Nadu Legislative Assembly, 2006 held from the Constituency specified in the column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder:—

And, whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or legislative assembly or Legislative Council of a State for a period 3 years from the date of this Order.

TABLE

Sl. No.	No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of the contesting Candidate (S/Sh/Smt.)	Reason for disqualification
1	2	3	4
1.	1—Royapuram	Sreenivasulu J. No. 44, Chidambaram, Nathan Street, Anjaneya Nagar, Royapuram, Chennai-13	Accounts not lodged at all.
2.	—do—	Alexander G. No. 117/1, P.V. Koil Street, Royapuram, Chennai-13	—do—
3.	2-Harbour	K. Sakthivel 138, Varatha Muthiappan Street, Seven Walls, Chennai-1	—do—
4.	—do—	P. Munusamy, 38/1, Narayanappa Street, Old Washermenpet, Chennai-21	—do—
5.	5-Perambur (SC)	Lingam J. No. 51/1, New Street, Ayanavaram, Chennai-23	—do—
6.	—do—	Samydooss S., No. 10, Venkatesapuram New Colony, 1st Street, Kannigapuram, Chennai-12	—do—
7.	—do—	Deiva, Swarup Chandran, No. 1, Ramachandran Street, Perambur, Chennai-11	—do—
8.	—do—	Baskar E., No. 31, Moorthinger Street, Vyasarabadi, Chennai-39	—do—
9.	—do—	Ravichandran D., No. 13/1, Peria Palayathamman Koil, 2nd Street, Moolakothalam, Chennai-21	—do—
10.	6-Purasawalkam	Vasanth Kumari, A., 11/53, Kamarajar Street, Thiruvalluvar Nagar, Ayanavaram, Chennai-23	—do—
11.	—do—	Senthil Vadivelan, S. P., 8/2, N-Block, 23rd Street, Anna Nagar East, Chennai	—do—
12.	—do—	Venkatesan, G., 53/2, Bajanai Koil Street, Kizh, Naduvangarai, Chennai-106	—do—
13.	9-Theagarayanagar	Rajendra Prasad, S., 1/32, Subedar Thottam, Choolaimedu, Chennai-600094	—do—
14.	—do—	Hasan Fizal, L.S.M., No. 4-7, Sowrashtra Nagar, IInd Street, Choolaimedu, Chennai-600094	—do—
15.	—do—	Appu Vimal, J., No. 7, Bajanai Koil, First Street, Vadapalani, Chennai-600026	—do—
16.	—do—	Anbazhagan, J., No. 7, Thiruvalluvar Street, Mathizhagan Nagar, Saligramam, Chennai-600093	—do—
17.	—do—	Natarajan, V., No. 11/10-3, New Boag Road, T. Nagar, Chennai-600017	—do—

619 GI/07-6

1	2	3	4
18.	9-Theagarayanagar	Rajan R., No. 48/68, Bajanai Koil, 1st Street, Vadapalani, Chennai-600026	Accounts not lodged at all.
19.	12-Triplicane	Saravanan, K., 14, Sivaraja Puram, Triplicane, Chennai-5	—do—
20.	—do—	Sasikumar, S., 33/6, Ayothiya Nagar, Triplicane, Chennai-5	—do—
21.	—do—	Shanmugam, P., 60A, Venkatrangam Street, (Slum Area) Sivarajapuram, Triplicane, Chennai-5	—do—
22.	—do—	Santhanam, M., New No. 106, Old No. 44, Soorappa Street, Triplicane, Chennai-5	—do—
23.	—do—	Vivekanandan, R., No. 6, L. G. Block, Lloyds Colony, Royapettah, Chennai-14	—do—
24.	13-Mylapore	Gokulnathan, B., 39/20, Rosary Church Road, Mylapore, Chennai-4	—do—
25.	—do—	Sekar, C., 63, 3rd Street, South Kesava, Perumalpuram, Greenways Road, Chennai-28	—do—
26.	14-Saidapet	Kandasamy, P., No. 35/547, Tamil Nadu Slum Clearance Board, New Tenements, Gothamedu, Saidapet, Chennai-15	—do—
27.	—do—	Thiruvengadam, U., Old No. 20A, New No. 53, Bharathi Nagar Main Road, Bharathi Nagar, Guindy, Chennai-32	—do—
28.	—do—	Jaishankar, M., No. 31/496, Tamil Nadu Slum Clearance Board, New Tenements, Gothamedu, Saidapet, Chennai-15	—do—
29.	22-Chengalpattu	Thulasi Ammal, R., 2, 4th Street, Gajalakshmi Colony, Shenoy Nagar, Chennai-600030	—do—
30.	—do—	Vedapuri, M., A-17A, First Main Road, Anna Nagar, Chengalpattu	—do—
31.	48-Vellore	Karthigeyan, B., 39, Govinda Mudali Street, Katpadi, Vellore-632007	—do—
32.	50-Cheyyar	Tamizhiniyan, T., 83, perumal Koil Street, Dusi Village & Post, Cheyyar Taluk-631702	—do—
33.	—do—	Dass, U., Mennallur Village & Post, Cheyyar Taluk	—do—
34.	51-Vandavasi (SC)	Sasikumar, V., S/o Varadhan, Kiznethapakkam Akkur Post, Cheyyar Tk.	—do—
35.	52-Peranamallur	Dhanusu, R., 1/59-A, Vadakku Raja Street, Nedungunam Village, Vandavasi Taluk	—do—

1	2	3	4
36.	85-Tharamangalam	Muthusamy, P., Nachivayanur, Panankattur (PO), U. Maramangalam, Omalur Taluk	Accounts not lodged at all.
37.	—do—	Palanivel, M., Ward-11, 9, Pudhu Street, Line-2, Tharamangalam, Omalur Taluk	—do—
38.	87-Yercaud (ST)	Kuppayee, Tmt. E., 30/68, Ondikadai Post, Mundagampadi, Yercaud	—do—
39.	—do—	Chandran, D., Pappinaickenpatti Post, Pudu Pappinaickennatti, Attur Taluk	—do—
40.	92-Attur	Anto David, S., Old No. 23, New No. 1, Mary Street, 9th Ward, Attur-636102	—do—
41.	—do—	Laxmanan, N., Old No. 41, New No. 38, Manian Street, Ward No. 16, Pudupet, Attur-636141	—do—
42.	117-Kangayam	Subramaniyam, K., 161, Sakthi Nagar, Dharapuram Road, Kangayam	—do—
43.	—do—	Palanisamy, K., 5/95, Appiapalayam, Sengodampalayam, Kangayam	—do—
44.	118-Modakkurichi	Selladurai, K., 60, Velampalaym, 60, Velampalayam (P.O.), Elumathur (Via), Erode Taluk	—do—
45.	—do—	Mayilsamy, K., 14 Main Veethi, Harijan Street, Rattaisutripalayam, Avalpoondurai (P.O.), Erode Taluk	—do—
46.	119-Perundurai	Subramaniam, M.M.S., S/o Marisamy, 19, Rice Mill Pudur, Nallampatti, (PO), Thudupathi, (Via) Perundurai. (TK)	—do—
47.	—do—	Devadasan, B., S/o Balaiya Nadar, 219, Thendral Nagar, Perundurai-638052	—do—
48.	—do—	Saminathan, R., S/o Raman, 21, Harijan Colony, Unjapalayam, Attavanai Hanumanpalli, Arachalur-638101	—do—
49.	138-Usilampatti	Surya Dev, M., S/o E. Mayandi, 186/36, Deiva Kanni Street, Anuppanadi, Madurai-9	—do—
50.	140-Sholavandan	Seenivasan, S., S/o O. Subbiah, 59A North Street, Alanganallur, Vadiapatti Taluk, Madurai District.	—do—
51.	141-Thirupparanundram	Sarath Babu, C., Plot No. 3347, Mela Anuppanadi Quarters, Madurai-9	—do—
52.	144-Madurai East	Edward-P.S.P., 203, Muniyandi Koil Street, Madurai-10	—do—
53.	—do—	Rajagopal, R., C-195-T.N.H.B. Colony, Tamil Nagar, Anaiyur, Madurai-17	—do—

[No. 76/TN-LA/2007]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.